

Baba's Praise

03/02/2015

निराकार परमात्मा और उनके दिव्य गुण



- कहते भी हैं-हे **पतित- पावन** आकर हमको पावन बनाओ क्योंकि समझते हैं हम पतित बुद्धि हैं ।
- तुम बच्चों को अभी **बाप** मिला है, भक्तों को **भगवान्** मिला है, कहते भी हैं भक्ति के बाद भगवान् आकर **भक्ति का फल देते** हैं क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं ।
- तुम बच्चों को **सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज बाप देते** हैं । बाप **नॉलेजफुल** है तो बच्चों को भी नॉलेज देते हैं ।

परमात्मा शिव ज्योति-बिन्दु स्वरूप है INCORPOREAL GOD & HIS ATTRIBUTES



भगवान् कहते हैं :- "हे वत्सो ! मैं नाम से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ बल्कि मेरा नाम 'शिव' है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति-बिन्दु है । ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रचियता होने के कारण मैं 'त्रिमूर्ति' भी कहलाता हूँ । अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके पुनः सच्चा गीता-ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा हूँ और सतयुगी देवी स्वराज्य की स्थापना करा रहा हूँ । अतः अब आप पूर्ण पवित्र बनो और राजयोगी बनो तो मैं आपको 21 जन्मों के लिये आने वाली देवी सृष्टि (वैकुण्ठ;स्वर्ग) में राज्य और भाग्य का ईश्वरीय जन्म-सिद्ध अधिकार दूँगा ।"

- इस चक्र का किसको पता नहीं है । इसका **क्रियेटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर** कौन हैं-कुछ भी नहीं जानते ।
- तुम **एक माशूक** के आशिक हो ना । एक माशूक को सब आशिक याद करते हैं ।
- भगवान् कहते भी **शिव** को हैं । भगवान् तो एक ही होता है । सब **भक्तों को फल देने वाला** एक भगवान् ।

परमात्मा शिव ज्योति-बिन्दु स्वरूप है INCORPOREAL GOD & HIS ATTRIBUTES



भगवान् कहते हैं :- "हे वत्सो ! मैं नाम से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ बल्कि मेरा नाम 'शिव' है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति-बिन्दु है । ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रचियता होने के कारण मैं 'त्रिमूर्ति' भी कहलाता हूँ । अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके पुनः सच्चा गीता-ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा हूँ और सतयुगी देवी स्वराज्य की स्थापना करा रहा हूँ । अतः अब आप पूर्ण पवित्र बनो और राजयोगी बनो तो मैं आपको 21 जन्मों के लिये आने वाली देवी सृष्टि (वैकुण्ठ; स्वर्ग) में राज्य और भाग्य का ईश्वरीय जन्म-सिद्ध अधिकार दूँगा ।"

- आत्मा कहती है ओ **गॉड फादर** । वो लौकिक फादर तो यहाँ हैं फिर भी उस बाप को याद करते हैं, तो आत्मा के दो फादर हो जाते हैं ।
- बाप कहते हैं तरस पड़ा है तब तो फिर से आया हूँ, **तुमको गुणवान बनाने** ।
- तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है । **बाप राजयोग सिखला रहे हैं** ।

परमात्मा शिव ज्योति-बिन्दु स्वरूप है INCORPOREAL GOD & HIS ATTRIBUTES



भगवान कहते हैं :- 'हे वत्सो ! मैं नाम से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ बल्कि मेरा नाम 'शिव' है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति-बिन्दु है । ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रचयिता होने के कारण मैं 'त्रिमूर्ति' भी कहलाता हूँ । अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके पुनः सच्चा गीता-ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा हूँ और सतयुगी देवी स्वराज्य की स्थापना करा रहा हूँ । अतः अब आप पूर्ण पवित्र बनो और राजयोगी बनो तो मैं आपको 21 जन्मों के लिये आने वाली देवी सृष्टि (वैकुण्ठ;स्वर्ग) में राज्य और भाग्य का ईश्वरीय जन्म-सिद्ध अधिकार दूँगा ।'

• बाप तो **भारत में आकर सबको ज्ञान देते** हैं । वही **सबका पतित-पावन** है, सबको **लिबरेट करते** हैं । और धर्म स्थापक कोई सद्गति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने । वह कोई शान्तिधाम-सुखधाम में नहीं ले जाते, **सबको शान्तिधाम, सुखधाम में बाप ही ले जाते** हैं । जो **दुःख से छुड़ाए सुख देते** हैं, उनके ही तीर्थ होते हैं । मनुष्य समझते नहीं, वास्तव में **सच्चा तीर्थ तो एक बाबा का** ही है । भारत ही सच्चा तीर्थ है, जहाँ बाप आकर सबको मुक्ति-जीवनमुक्ति देते हैं ।

• **अल्लाह** को याद करो तो बे बादशाही मिल जायेगी

परमात्मा शिव ज्योति-बिन्दु स्वरूप है INCORPOREAL GOD & HIS ATTRIBUTES



भगवान कहते हैं :- 'हे वत्सो ! मैं नाम से न्यारा या सर्वव्यापी नहीं हूँ बल्कि मेरा नाम 'शिव' है और मेरा अव्यक्त स्वरूप ज्योति-बिन्दु है । ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का भी रचियता होने के कारण मैं 'त्रिमूर्ति' भी कहलाता हूँ । अब मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके पुनः सच्चा गीता-ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा हूँ और सतयुगी देवी स्वराज्य की स्थापना करा रहा हूँ । अतः अब आप पूर्ण पवित्र बनो और राजयोगी बनो तो मैं आपको 21 जन्मों के लिये आने वाली देवी सृष्टि (वैकुण्ठ;स्वर्ग) में राज्य और भाग्य का ईश्वरीय जन्म-सिद्ध अधिकार दूँगा ।'